



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 वैशाख 1946 (श10)
(सं0 पटना 460) पटना, मंगलवार, 14 मई 2024

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
10 मई 2024

सं0 5/एम0-806/2011 गृ0आ0 5123—राष्ट्रपति का वीरता पुलिस पदक प्रदान किये जाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों की अनुशंसा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने के पूर्व गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के स्तर पर विभागीय अधिसूचना संख्या-3217, दिनांक-06.05.2021 द्वारा स्क्रीनिंग कमिटी की गठन की गयी थी।

2. समीक्षा के क्रम में राज्य सरकार द्वारा महसूस की गई की स्क्रीनिंग कमिटी में क्षेत्रीय स्तर से पदाधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिये जाने की आवश्यकता है।

3. अतः विभागीय अधिसूचना संख्या-3217, दिनांक-06.05.2011 को अवक्रमित करते हुए, सुयोग्य पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को राष्ट्रपति का वीरता पदक/वीरता पदक से अलंकृत किये जाने के लिए गृह विभाग, बिहार, पटना को अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के स्तर पर पुलिस महानिदेशक, बिहार की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमिटी का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | पुलिस महानिदेशक, बिहार | — | अध्यक्ष |
| (ii) | अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार | — | सदस्य |
| (iii) | अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार | — | सदस्य |
| (iv) | अपर पुलिस महानिदेशक, अभियान, बिहार | — | सदस्य |

(v)	क्षेत्र में पदस्थापित वरीयतम पुलिस महानिरीक्षक	—	सदस्य
(vi)	क्षेत्र में पदस्थापित 02 (दो) वरीयतम पुलिस उप-महानिरीक्षक	—	सदस्य
(vii)			

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार दास,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 460-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>